



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3—जून 9, 2006 (ज्येष्ठ 13, 1928)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3—JUNE 9, 2006 (JYAISTHA 13, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2006

सं. 03/09/2002-प्रशासन.--राष्ट्रपति जी सहर्ष डॉ. के.बी. ठाकुर उपराष्ट्रपति जी के विशेष कार्य अधिकारी का वेतनमान रुपए 12,000-16,500 से बढ़ाकर रुपए 14,300-18,300/- दिनांक 12 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 2006

सं. पीएफ1284(3)/एएन-1/जीएन-5649/2006.--अध्यक्ष महोदय कार्यकारी विधायी/समिति/प्रोटोकोल अधिकारी श्री बसुदेव के. गुप्ता, जिन्हें दिनांक 23 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5620/2006 के द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक नियुक्त किया गया था, को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर 17 मई, 2006 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. सहायक निदेशक के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. पी डी ए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

जे.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ 1503(3)/एएन-1/जीएन-5651/2006.--अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकोल सहायकों, जिन्हें 30 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या जी एन-5593/2005 और 23 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या जी एन-5621/2006 के द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकोल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकोल अधिकारी के ग्रेड में निम्नलिखित क्रम में नियमित आधार पर 17 मई, 2006 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री अशोक कुमार शर्मा
2. श्रीमती के रंगमणि नरसिम्हन

2. वे कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 17 मई, 2006 से 16 मई, 2008 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. पी डी ए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

जे.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ 1570(3)/एएन-1/जीएन-5652/2006.--अध्यक्ष महोदय 7,450-11,500 रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों को 8,000-275-13,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 17 मई, 2006 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री हरपाल सिंह
2. श्री राजेन्द्र सिंह यादव

जे.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ 2968(3)/एएन-1/जीएन-5650/2006.-- अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपये के वेतनमान में कार्यरत श्री संतोष कुमार, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 17 मई, 2006 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे.पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक मई 2006

सं. ए-38012/03/2006-प्रशा. I.--अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री पिताम्बर तहिलियानी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय 30 अप्रैल, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

रामसिंह यादव, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 12 मई 2006

सं.एस.सी./7(1)/80.--राष्ट्रपति, इस विभाग में श्री एस.वी. रंगनाथ, अपर सचिव को उनकी अपर सचिव के रूप में सेवा के अतिरिक्त आगामी आदेश तक सचिव, अन्तरिक्ष आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2006

सं.ए-43014/01/2006-प्रशा.II.--आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. 11016/3/2004- आई ई एस दिनांक, 18.1.2006 के तहत, आईईएस

के ग्रेड IV में पदोन्नति होने और योजना आयोग में उनकी अनुसंधान अधिकारी के रूप में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, श्री श्याम लाल ने योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में दिनांक 3 मई 2006 (पूर्वाह्न) से कार्यभार संभाल लिया है।

राजकुमार परमार, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2006

सं.ए 12025/01/2005-प्रशा.II.--राष्ट्रपति, योजना आयोग में आर्थिक अधिकारी, श्रीमति किरन गुप्ता को योजना आयोग में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के रूप में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 05.05.2006 (पूर्वाह्न) से या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

राजकुमार परमार, अवर सचिव

सं.ए 12025/01/2005-प्रशा.II.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक विधायन केन्द्र में समंक विधायन सहायक ग्रेड-III, श्री आनंद प्रकाश को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500 के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 18.05.2006 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

आर.के. परमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

सं.ए 12025/22/2000-प्रशा.1.--योजना आयोग के दिनांक 19 जून, 2002 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, श्री सी. हरिदास की योजना आयोग में 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में उप-सलाहकार (मछली पालन) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 18.06.2006 से 30.06.2006, अर्थात् उनकी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि तक बढ़ाते हैं।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2006

सं.ए 12022/02/2006-प्रशा.IV.--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आदेश संख्या 11016/2/2005-आई ई एस, दिनांक 7.4.2006 के तहत वरिष्ठ समयमान (10,000-325-15,200) से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (12,000-375-16,500) में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री एस.एम. जयपालन ने, योजना आयोग, के हैदराबाद स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय में उपसलाहकार के रूप में दिनांक 27 अप्रैल 2006 को पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2006

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च 2006

सं. ए-20/जी-बी/109--आयोग की दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, निजी सचिव श्री आर. शम्बी जयराज, की प्रतिनियुक्ति की पदावधि दिनांक 30.03.2007 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, एतद्वारा बढ़ाई जाती है।

आदेश से, (स्टैंडहोप युहलुंग), अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं. ए-12023/4/2006-वि.सा.प्र.(प्र.)--सचिव, श्री जी.सी. पंत, कारबार कार्यपालक, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन को, तारीख 23 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से छह मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500 रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक प्रबंधक नियुक्त करते हैं।

2. श्री पंत की उपरोक्त नियुक्ति, उन्हें सहायक प्रबंधक के ग्रेड में उनकी ज्येष्ठता के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं बनाएगी और न ही उनके द्वारा की गई सेवा को सहायक प्रबंधक के पद पर, नियमित आधार पर, उनकी नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2006

सं. ए-1234/2/2004-प्रशा.IV(वि.का.)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ग्रेड III पदाधिकारी श्री सी.बी. पद्मनाभन को दिनांक 22.06.2005 के पूर्वाह्न से और एक वर्ष की अवधि के लिए रु. 6,500-10,500/- के वेतनमान में माननीय विधि और न्याय राज्यमंत्री (श्री के. वेंकटपति) के वैयक्तिक अनुभाग में सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। तथापि उनका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संगत अनुदेशों के अनुसार शासित होगा। श्री सी.बी. पद्मनाभन की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा विधि और न्याय राज्यमंत्री के पद पर श्री के वेंकटपति के कार्यकाल तक अथवा उनके प्रसाद पर्यन्त होगी।

वी. जी. मंगल, अवर सचिव

सं. के. 13014/7/2005-यू.एस.1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री अविनाश पुंडलीक लवंदे, (2) न्यायविद् श्री अंबादास हरीभाऊ जोशी और (3) न्यायविद् श्री भूषण प्रधूम धर्माधिकारी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री शैलेन्द्र उत्तमचंद कामदार और (2) श्री नेलसन आपोलिना-यो ब्रिट्टो को उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 15 मार्च, 2006 से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 मार्च 2006

सं. के. 13025/1/2006-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री रघुनाथ बिश्वाल, (ii) न्यायविद् श्री अरून कुमार परीछ और (iii) न्यायविद् श्री नित्यानन्द घुष्टि का उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13025/9/2004-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इन्द्रजीत माहान्ती को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13027/1/2005-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री रणजीत सिंह, (ii) श्री विनोद कुमार शर्मा, (iii) श्री तेज प्रताप सिंह मान, (iv) श्री महेश ग्रोवर, (v) श्री अजय लाम्बा, (vi) श्री राजेश बिन्दल और (vii) श्री परमजीत सिंह पतवालिआ को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मई 2006

सं. 14016/28/2005-यूटीएस-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) के तहत, संयुक्त सचिव (यूटी) गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म की तारीख
सर्वश्री		
1. सुश्री राकेश शर्मा	डी-I/433	14.10.1952
2. श्री करम चंद चमोली	डी-I/501	15.01.1947

रजनीश तिगल, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2006

सं. 14016/6/2003-यू.टी.एस.-II--दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा की प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी श्रीमती कमला भल्ला का 3 दिसम्बर, 2005 को स्वर्गवास हो गया है।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 मई 2006

सं. I-18011/3/2006-आईपीएस.IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री जोश मोहन, आईपीएस (राजस्थान : 2002) को 23.12.2004 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

जे. बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

को, उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	सुश्री सोनिया नारंग आईपीएस (कर्नाटक : 2002)	02.09.2004
2.	श्री सुब्रमण्येश्वर राव, ए. आईपीएस (कर्नाटक : 2002)	02.09.2004

जे. बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

दिनांक 24 मई 2006

सं. I-18011/5/2006-आईपीएस.IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समने दर्शायी गई तारीखों से स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
सर्वश्री		
1.	तरूण गाबा, आई पी एस (यूपी : 2001)	26.12.2003
2.	आशुतोष कुमार, आई पी एस (यूपी : 2001)	11.01.2004

जे. बी. कौशिश, डेस्क अधिकारी

दिनांक 25 मई 2006

सं. I-18011/8/2005-आईपीएस.IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समने दर्शायी गई तारीखों से स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3
सर्वश्री		
1.	वर्मा राजीव रंजन, आई पी एस (यूपी: 1990)	15.09.1993

सं. I-18011/4/2006-आईपीएस.IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कर्नाटक संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों

1	2	3
2.	मौर्य विजय कुमार, आई पी एस (यूपी: 1990)	16.09.1993
3.	तराडे संजय, एम, आई पी एस (यूपी: 1990)	15.09.1993

जे. बी. कौशिश, डैस्क अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2006

सं. 14013/15/2002-अ.भा.से. (III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री टी.डी. नेगी	1991	09.03.1999
2.	श्री जे.पी. सिंह	1991	09.03.1999

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 19 मई 2006

सं. 13016/6/1999-प्रशि. I (खंड II)--सचिव, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्री गगन दीप चावला, निजी सचिव, स्वास्थ्य एवं कल्याण, मंत्रालय की सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण) के रूप में नियुक्ति को 01.06.2006 से 30.11.2006 तक अगले छह माह की अवधि के लिए या उनके स्थान पर किसी पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक, इनमें जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह इस विभाग की दिनांक 19.12.2005 की अधिसूचना सं. 13016/6/1999-प्रशि. I (खंड II) के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2006

सं. ए. 12011/2/2005-(पीए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.02.2006 के आदेश संख्या 21/24/2005-सीएस-1 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री जी. सी. राजत

(केन्द्रीकृत चयन सूची संख्या 5330) को 10,000-335-15,200/- रुपए के वेतनमान में 24 मार्च 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर श्री जी. सी. राजत की उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

(i) तदर्थ प्रोन्नति संवर्ग में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में वरीयता दावे के लिए कोई अधिकार नहीं देगी।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

एस. के. खुराना, उप सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

सं. ए-32015/1/2004-आ. स. (प्रशा. I)--राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ अन्वेषकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी स्थिति पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति का पद	पूर्वतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अवधि
1.	श्री लटूर सिंह	आर्थिक अधिकारी	1.2.2006 से 30.6.2006
2.	श्री आशीष बनर्जी	आर्थिक अधिकारी	1.2.2006 से 30.6.2006
3.	श्रीमती कमलेश भाटिया	आर्थिक अधिकारी	1.2.2006 से 30.6.2006

यह सभी पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गई हैं, जिसके लिए उक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को इन पदों पर बने रहने या इन ग्रेडों में वरीयता मांगने का या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना अथवा सूचना आदि दिए बिना ही समाप्त कर सकती है।

समरेन्द्र साहु, अपर आर्थिक सलाहकार

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. 11/2006 (ए-12022/1/2006-स्था.-I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री राहुल खुल्लर, आई.ए.एस. (एजीएमयू : 75) को, जो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, के वर्तमान में धारित पद का अस्थायी रूप से स्तर बढ़ाते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, अपर सचिव (स्वस्थाने) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. 12/2006 (ए-12022/2/2006-स्था.-I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री नीलोत्पल गोस्वामी, आई.ए.एस. (92), जो वर्तमान में त्राणिज्य विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30.04.2006 से आगे दो महीनों के लिए और 30.06.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2006

सं. ए-12011/05/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री घनश्यामभाई पटेल को दिनांक 06.02.2006 से रु. 10,000—15,200/- के वेतनमान में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

सं. ए-12012/2/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री महादेव यादव, सुपुत्र श्री सूर्य पाल यादव को 29 जनवरी, 2006 से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में कोयला मंत्री (श्री शिवु सोरेन) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री महोदय द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगी।

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

सं. ए-12012/2/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री भास्कर चटर्जी, सुपुत्र श्री विश्वनाथ चटर्जी को 30 जनवरी, 2006 से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में कोयला मंत्री (श्री शिवु सोरेन) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री महोदय द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगी।

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2006

सं. ए 12/9/2006-एसओ--राष्ट्रपति, श्री बिनोद किस्पोटा, भा.प्र.से. (एमटी : 1987) को 16 मई, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस समय तक जब तक सेन्ट्रल स्टाफिंग योजना के अधीन संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर उनके सूचीबद्ध होने की स्थिति में कहीं उनकी तैनाती होती है अथवा जब वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम करना बंद कर देंगे अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के स्तर पर कोयला मंत्री (श्री शिवु सोरेन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री किस्पोटा की कोयला मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

दिनांक 22 मई 2006

सं. 12/12/2006-एसओ--राष्ट्रपति, श्री ए. ए. राव, आई.आई.एस. (87) को तत्कालीन राज्य मंत्री (कोयला) और राज्य मंत्री (खान) से मंत्री का विभाग बदलकर राज्य मंत्री (कोयला) हो जाने के कारण कोयला राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर, मंत्री के निजी सचिव के रूप में अपने पांच वर्षों के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए 7.2.2006 से 6.7.2009 तक अथवा उनके मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बन्द करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनका कार्यकाल 6.7.2004 (अपराह्न) से है।

कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में श्री राव की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल के साथ सहसमाप्य आधार पर होगी।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. 18/1/2005-ए.एस.ओ.--कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 17 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने श्री ए. एन. सहाय, कोयला नियंत्रक को उक्त अधिनियम के तहत भुगतान आयुक्त को सौंपे कार्यों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ भुगतान आयुक्त के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए 26.4.2006 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया है।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2006

सं. ए-38012/01/2006-स्था. I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपचर्या अधिकारी, श्रीमती मृदुला दास ने 3 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति ले ली है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 मई 2006

सं. ए-32020/1/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप संवर्ग के अधिकारी और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कार्य कर रहे डा. राम कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 21.3.2006 को हुए निधन पर शोक व्यक्त करते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 मई 2006

सं. ए-38012/9/2005-सी.एच.एस.-I--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप संवर्ग की अधिकारी और सफदरजंग

अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) के पद पर कार्यरत डा. (श्रीमती) गीतांजली डे ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन स्वैच्छिक आधार पर सेवा निवृत्ति ले लेने के परिणाम स्वरूप 16.12.2005 (पूर्वाह्न) को उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. 38017/1/2005-एम-1--श्री जी. बी. डांडी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी (ग्रुप-I), 8000-325-13500/- रु. के वेतनमान में विपणन और निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.8.2005 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

एस. के. गाडी, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2006

सं. 12-3/2002-प्रशासन-3--राष्ट्रपति, श्री एम. एच. चौधरी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, हैदराबाद को दिनांक 24.3.2006 (पूर्वाह्न) से 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति पर चारा शस्य वैज्ञानिक, क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, चैन्नई के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनीता तिपरा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. 2-5/2004-प्रशासन डी II (भाषा) (के.हि.नि.)--राष्ट्रपति सहर्ष डा. भ.प्र. निदारिया, श्रीमती कुलदीप कौर एवं डा. बी. आर. प्रसाद जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं की उसी कार्यालय में सहायक निदेशक (भाषा) पद वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के आदेश देते हैं।

हेमचंद, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. पी एफ/एस/113-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 4/12/2001-सी एस.-I दिनांक 13 अक्टूबर 2005 तथा का. जा. सं.-4/10/2005-सी एस.-I दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त ग्रेड-I के अधिकारियों की सूची में इनके नाम को शामिल करने के पश्चात्, राष्ट्रपति, श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव को, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप-सचिव) को 1 जुलाई 1995 से नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का वेतन सैद्धान्तिक आधार पर 1 जुलाई 1995 से नियत किया जायेगा तथापि वास्तविक वित्तीय लाभ केवल उसी तारीख अर्थात् 9 अगस्त 1999 से उपलब्ध होगा, जब अधिकारी की उपसचिव के पद पर नियुक्त की गई थी।

श्री एस. सी. शर्मा, उप-सचिव अधिवर्षिता पर 31 अक्टूबर 2003 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये थे।

एस. एस. शर्मा, उप-सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मई 2005

सं. ए-39013/1/96-प्रशासन-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री सोमनाथ भौमिक, (कर्मचारी कोड सं. 4163) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र पुरलिया, पश्चिम बंगाल, में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

सं. 5468/एनआईसी/2006-का.व स्था-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री एन. वेंकटा नरसिम्हा राव, (कर्मचारी कोड सं. 5468) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मध्य प्रदेश राज्य एकक, भोपाल में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 17 फरवरी, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मई 2006

सं. ए-39013/1/1995--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री नीरज त्रिवेदी, (कर्मचारी कोड सं. 4246) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1995 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2006

सं. ए-60011/093/2005-वी.ई.--राष्ट्रपति, श्री कानु गोहाईन, संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन को 12 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में नागर विमानन

महानिदेशालय में नियमित आधार पर महानिदेशक नागर विमानन नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2006

सं. ए-12011/1/2005-एस एस.--राष्ट्रपति श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, आई पी एस (यू पी: 88) को दिनांक 20.04.2006 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में अपर सुरक्षा सचिव (नागर विमानन) के पद पर पांच वर्ष अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, के लिए 16,400-450-20,000/- रुपए के वेतनमान पर तथा 800/- रुपए प्रति माह के विशिष्ट भत्ते पर प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त करते हैं।

संजीव जिन्दल, अवर सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2006

सं.-ए-12025/1/2003-एम.ए.--राष्ट्रपति, महानिदेशालय, मुम्बई में नॉटिकल सर्वेक्षक कैप्टन जे. एस. उप्पल को 13 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में उप सामुद्रिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

सं.-ए-12026/1/2006-एम.ए.--राष्ट्रपति, श्रीमती किरण धोंगरा, भा.प्र.से. (एजीएमयू-75) को 17 अप्रैल, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भारत सरकार के अपर सचिव की श्रेणी और वेतनमान में नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई में नौवहन महानिदेशक नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2006

सं.आर डब्ल्यू/एपी (एसई)/555-ई-II (खंड-II).--भारतीय राष्ट्रपति राजमार्ग प्राधिकरण के दिनांक 16 मार्च, 2006 के कार्यलय आदेश सं. 11021/1/98-प्रशासन-III के द्वारा इस विभाग के अधीक्षण अभियंता (सिविल) श्री वाई. बालकृष्ण ने दिनांक 31.3.2006 (अपराह्न) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति से वापस लौट कर दिनांक 3 अप्रैल, 2006 (पूर्वाह्न) (दिनांक 1.4.2006 और 2.4.2006 को अवकाश होने के कारण) को मुख्यालय, नई दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी.एन मिश्रा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2006

सं. 12/2006, फाईल संख्या 3/8/2004-स्थापना एक.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह क) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्ज दिनांक से अगले आदेश होने तक, रु. 18,400-22,400/- के वेतनमान में, उसी सेवा में, पदोन्नति पर, वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री आर. पी. सक्सेना	27.04.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री शंकर महतो	30.03.2006 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राजिन्दर कुमार खन्ना	10.03.2006 (पूर्वाह्न)
4.	श्री पी.वी. राव	10.03.2006 (पूर्वाह्न)

हरप्रताप सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2006

सं 0 7/2/2006-प्रशा. II--श्री बी. के. टंडन की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2005 के का. ज्ञा. सं. 5/21/2005-सी.एस. II के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्रेणी (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में पदोन्नति के फलस्वरूप और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दिनांक 29.12.2005 के उनके कार्यालय आदेश सं. 212/2005 (एफ सं. ए-32014/2/2002-प्रशा. I ए) के द्वारा कार्यभार से मुक्त किए जाने के पश्चात् उन्हें 30.12.2005 की पूर्वाह्न से 30.6.2006 तक की अवधि हेतु अथवा नियमित आधार पर इस पद पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें उसी तारीख से प्रसार भारती (आकाशवाणी महानिदेशालय) में तैनात किया जाता है।

श्यामा कुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2006

सं. 3/1/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री फजल महमूद को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.2.2006 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस-I के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I (अवर सचिव) में पदोन्नति होने के फलस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.03.2006 के आदेश सं. 21/24/2005-सी एस-I (खंड) (i) के अनुसरण में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी I (अवर सचिव) के रूप में

दिनांक 24.2.2006 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

श्यामा कुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2006

सं. 13/1/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री प्रवीण कुमार, आई आर एस (आई टी : 89) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक के रूप में दिनांक 10.4.2006 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

श्यामा कुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2006

सं. 1/46/2004-एम.यू.सी.--राष्ट्रपति, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) और प्रकाशन विभाग (डी.पी.डी.) के कला और निर्माण स्टाफ के सामान्य संवर्ग के सहायक निदेशक (निर्माण) श्री मनोज रंजन को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में दिनांक 31.3.2006 की पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उसी संवर्ग में निर्माण प्रबंधक (समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वह दिनांक 31.3.2006 से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

फजल महमूद, अवर सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th May 2006

No. 03/09/2002-Admn.—The President is pleased to upgrade the pay scale of Dr. K. B. Thakur, OSD to Vice-President of India from Rs. 12,000—16,500/- to Rs. 14,300—18,300/- w.e.f. 12th May 2006 (F/N) till the tenure of the Present Vice-President of India or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 18th May 2006

No. PF.1284(3)/AN-I/GN-5649/2006—The Speaker is pleased to appoint Shri Basudeo K. Gupta Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer who was appointed as Assistant Director on adhoc basis vide Notification No. GN-5620/2006 dated 23rd February, 2006 to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from 17th May, 2006 until further orders.

2. His inter-se seniority in the grade of Assistant Director will be regulated in terms of R & CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

No. PF.1503(3)/AN-I/GN-5651/2006—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants who were appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers on ad-hoc basis vide Notification No(s). GN-5593/2005 dated 30th December, 2005 and GN-5621/2006 dated 23rd February, 2006 to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity, in the order shown below, on regular basis with effect from 17th May, 2006 until further orders :—

1. Shri Ashok Kumar Sharma
2. Smt. K. Rangamani Narasimhan

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two years with effect from 17th May, 2006 upto 16th May, 2008.

3. Their inter-se seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

No. PF. 1570(3)/AN-I/GN-5652/2006—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the scale of

pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on ad-hoc basis with effect from 17th May, 2006 until further orders :—

1. Shri Harpal Singh
2. Shri Rajender S. Yadav

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

No. PF. 2968(3)/AN-I/GN-5650/2006—The Speaker is pleased to appoint Shri Santosh Kumar, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis with effect from 17th May, 2006 until further orders.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the May 2006

No. A.-38012/3/2006-Ad.I—On attaining the age of superannuation, Shri Pitamber Tahiliani, Senior Principal Private Secretary in the Cabinet Secretariat, retired from Government service in the afternoon of 30th April, 2006.

R. S. YADAV, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 12th May 2006

No. SC/7(1)/80—The President is pleased to appoint until further orders Shri S. V. Ranganath, Additional Secretary in this Department as Secretary, Space Commission, in addition to his duties as Additional Secretary.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 12th May 2006

No. A-43014/01/2006-Admn.II—Consequent upon his promotion to Grade IV of IES and posting as Research Officer in the Planning Commission vide Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2004-IES dated 18.1.2006, Shri Shyam Lal has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of the 3rd May, 2006 (FN).

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 18th May 2006

No. A-12025/01/2005-Admn.II—The President is pleased to appoint Smt. Kiran Gupta, Economic Officer,

Planning Commission as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 05.05.2006 (FN), or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

No. A-12025/01/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Anand Prakash, Data Processing Assistant Gr. III, Data Processing Centre, National Sample Survey Organisation as Research Officer in the Planning Commission in the Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 18.05.2006 (FN), or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

New Delhi, the 15th May 2006

No. A-12025/22/2000-Admn. I.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 19th June, 2002, the President is pleased to extend the term of deputation of Shri C. Haridas as Deputy Adviser (Fisheries) in the Planning Commission in the same scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- for the period from 18.06.2006 to 30.06.2006, i.e. upto the date of his superannuation from Government Service.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th May 2006

No. A-12022/2/2006-Admn.-IV.—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200/-) to the Junior Administrative Grade (Rs. 12,000-375-16,500/-) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 7.4.2006, Shri S. M. Jayapalan, an officer of Indian Economic Service assumed charge as Deputy Adviser in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Hyderabad w.e.f. the forenoon of 27th April, 2006.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 23rd May 2006

No. A-20/G-B/109.—In continuation of the Commission's Notification No. dated 19th October, 2005, the term of deputation of Shri R. Thamby Jeyaraj, Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Election Commission of India is hereby extended for

a further period upto 30.03.2007 or until further orders whichever is earlier.

By order.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

LEGISLATIVE DEPARTMENT

(VIDHI SAHITYA PRAKASHAN)

New Delhi, the 23rd January 2006

No. A-12023/4/2006-VSP (A)—The Secretary is pleased to appoint Shri G. C. Pant, Business Executive, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, to officiate as Assistant Manager on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of six months w.e.f. 23rd January, 2006 (FN) or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Sh. Pant will neither bestow on is any claim for his seniority in the grade of Assistant Manager nor the service rendered by him as such counted for his appointment in the post of Assistant Manager on regular basis.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 11th May 2006

No. A-12034/2/2004-Admn. IV (LA)—The President is pleased to appoint Shri C. V. Padmanabhan, Grade III official of Government of NCT of Delhi, as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of State for Law & Justice (Shri K. Venkatapathy) in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500/- for a further period of one year w.e.f. 22.06.2005 (FN). However, his pay will be governed in accordance with the relevant instructions of DOPT. The appointment of Shri C. V. Padmanabhan is for a period of one year or at the pleasure of or co-terminus with the tenure of Shri K. Venkatapathy as Minister of State for Law & Justice, whichever is the earliest.

V. G. MANGAL, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 9th March 2006

No. K. 13014/7/2005-U.S. I.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (1) Shri Justice Avinash Pundalik Lavande, (2) Shri Justice Ambadas Haribhau Joshi, and (3) Shri Justice Bhushan Pradyumna Dharmadhikari, Additional Judges of the Bombay High Court, to be Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is

pleased to appoint : (1) Shri Shailendra Uttamchand Kamdar, and (2) Shri Nelson Apolinario Britto to be Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of two years, with effect from March 15, 2006.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

The 21st March 2006

No. K. 13025/1/2006-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Justice Raghunath Biswal, (ii) Shri Justice Arun Kumar Parichha, and (iii) Shri Justice Nityananda Prusty, Additional Judges of the Orissa High Court, to be Judges of the Orissa High Court with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13025/9/2004-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Indrajit Mahanty, to be an Additional Judge of the Orissa High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13027/1/2005-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Ranjit Singh, (ii) Shri Vinod Kumar Sharma, (iii) Shri Tej Pratap Singh Mann, (iv) Shri Mahesh Grover, (v) Shri Ajai Lamba, (vi) Shri Rajesh Bindal, and (vii) Shri Pramjit Singh Patwalia, to be Judges of the Punjab and Haryana High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 4th May 2006

No. 14016/28/2005-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
1.	Ms. Rakesh Sharma	D-I/433	14.10.1952
2.	Shri Karam Chand Chamoli	D-I/501	15.01.1947

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

The 11th May 2006

No. 14016/6/2003-UTS-II.—Smt. Kamla Bhalla, Entry Grade Officer of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service expired on 3rd December, 2005.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 17th May 2006

No. I-18011/3/2006-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Jose Mohan, IPS (Rajasthan : 2002), in Indian Police Service with effect from 23.12.2004.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

No. I-18011/4/2006-IPS. IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of KARNATAKA with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1.	Ms. Sonia Narang, IPS (KTK : 2002)	02.09.2004
2.	Shri Subramanyeswara Rao. A, IPS (KTK : 2002)	02.09.2004

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

The 24th May 2006

No. I-18011/5/2006-IPS. IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of UTTAR PRADESH with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1.	Shri Tarun Gauba, IPS (UP : 2001)	26.12.2003
2.	Shri Ashutosh Kumar, IPS (UP : 2001)	11.01.2004

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

The 25th May 2006

No. 1-18011/8/2005-IPS. IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of UTTAR PRADESH with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
1.	Shri Verma Rajeev Ranjan, IPS (UP : 1990)	15.09.1993
2.	Shri Maurya Bijay Kumar, IPS (UP : 1990)	16.09.1993
3.	Shri Tarade Sanjay, M., IPS (UP : 1990)	15.09.1993

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 18th May 2006

No. 14013/15/2002-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Himachal Pradesh, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri T. D. Negi	1991	09.03.1999
2.	Shri J. P. Singh	1991	09.03.1999

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi-110067, the 19th May 2006

No. 13016/6/1999-Trg. I (Vol. II)—The Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training is pleased to continue the appointment of Shri Gagan Deep Chawla, Private Secretary, Ministry of Health and Family Welfare as Assistant Director (English Shorthand & Typewriting) in the Institute of Secretariat Training and Management, (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a further period of six months w.e.f. 01.06.2006 to 30.11.2006 or, till his substitute joins, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's Notification No. 13016/6/1999-Trg. I (Vol. II) dated 19.12.2005.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 18th May 2006

No. A.-12011/2/2005-P.A.—In pursuance of Department of Personnel and Training Order No. 21/24/2005-CS. I dated 24.02.2006, the President is pleased to appoint Shri G. C. Rout (CSL No. 5330) Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Human Resources Development (Department of Secondary and Higher Education) as Under Secretary in the Ministry of Overseas Indian Affairs, on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 24th March, 2006 (FN) till further orders.

2. The aforesaid appointments of Shri G. C. Rout on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS;

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. KHURANA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 15th May 2006

No. A-32015/1/2004-Ec. Ad. (Admn. I)—The President is pleased to appoint the following Junior Investigators of the Office of the Economic Adviser as Economic Officers in this office on ad-hoc basis for the period, as indicated against each, or till further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Post of Ad-hoc Promotion	Period	
			From	To
1.	Sh. Latoor Singh	Economic Officer	01.02.2006	30.06.2006
2.	Sh. Ashish Banerjee	—do—	01.02.2006	30.06.2006
3.	Smt. Kamlesh Bhatia	—do—	01.02.2006	30.06.2006

The appointments, ordered above, is made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

SAMARENDRA SAHU
Additional Economic Adviser

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 7th April 2006

No. 11/2006 (A-12022/1/2006/-E. I)—The President is pleased to appoint Shri, Rahul Khullar, IAS (AGMU : 75), presently Joint Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Additional Secretary

(In situ) in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce by temporarily upgrading the present post held by him with effect from the forenoon of 5 April, 2006, until further orders.

ANURAG SAXENA, Dir.

The 21st April 2006

No. 12/2006 (A-12022/2/2006-E.I)—The President is pleased to extend the tenure of Central deputation of Shri Nilopol Goswami, IA & AS (92) presently working as Deputy Secretary in the Department of Commerce for a period of two months beyond 30.04.2006 and upto 30.06.2006 or until further order whichever is earlier.

ANURAG SAXENA, Dir.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 16th March 2006

No. A-12011/05/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ghanshaymbhai Patel, as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Petroleum and Natural Gas with effect from 06.02.2006 in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/-

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 15th May 2006

No. A-12012/2/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Mahadev Yadav, son of Shri Surya Pal Yadav as Assistant PS to the Minister of Coal (Shri Shibu Soren) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 29th January, 2006. His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Jt. Secy.

No. A-12012/2/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bhaskar Chatterjee, son of Shri Biswanath Chatterjee as Assistant PS to the Minister of Coal (Shri Shibu Soren) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 30th January, 2006. His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Jt. Secy.

New Delhi, the 18th May 2006

No. 12/9/2006-ASO—The President is pleased to appoint Shri Binod Kispotta, IAS (MT : 1987) as Private Secretary to the Minister of Coal (Shri Shibu Soren) at the level of Director with effect from 16th May, 2006 for a period of five years or till such time, the posting of Shri Kispotta elsewhere, in the event of his empanelment to Joint Secretary level post under the Central Staffing

Scheme or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place the earliest. The appointment of Shri Kispotta as Private Secretary to the Minister of Coal will be co-terminus with the tenure of the Minister.

H. C. AGRAWAL, Dir.

The 22nd May 2006

No. 12/12/2006-ASO—The President is pleased to appoint Shri A. A. Rao, IIS (87) as Private Secretary to the Minister of State for Coal (Shri Dasari Narayan Rao) on account of change in the port folio of the Minister from the then MOS (Coal) and MOS (Mines) to MOS (Coal) at the level of Director with effect from 07.02.2006 to 06.07.2009 for the balance period of his five years tenure as Private Secretary to the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place the earliest. He counts his tenure at the centre w.e.f. 06.07.2004 (AN).

The appointment of Shri Rao as Private Secretary to the Minister of State for Coal will be co-terminus with the tenure of the Minister.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. 18/1/2005-ASO—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 17 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government has appointed Shri A. N. Sahay, Coal Controller to look after the additional charge of the post of Commissioner of Payments for the purpose of performing the functions assigned to the Commissioner of Payments under the said Act, with effect from 26.04.2006 and until further orders.

H. C. AGRAWAL, Dir.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th April 2006

No. A-38012/01/2006-Estt. I.—Smt. Mridula Das, Nursing Officer in the Department of Health & Family Welfare, has taken voluntary retirement from Government Service with effect from forenoon of 3rd January, 2006.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 19th May 2006

No. A-32020/1/2006-CHS. I.—The President is to announce with regret the sad demise of Dr. Ram Kumar, Chief Medical Officer an officer of General Duty Medical Officer Sub-Cadre of Central Health Service and was working under Central Government Health Scheme, Delhi, on 21.3.2006.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 24th May 2006

No. A-38012/9/2005-CHS. I.—Consequent upon voluntary retirement under rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, Dr. (Mrs.) Gitanjali Dey, an officer of GDMO Sub-Cadre of Central Health Service and holding the post of CMO (NFSG), Safdarjang Hospital, relinquished the charge of the post on 16.12.2005 (FN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 21st April 2006

No. 38017/1/2005-M.I.—Shri G. B. Dandi, Senior Marketing Officer (Group-I) in the pay scale of Rs. 8,000-325-13,500/- in Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Kolkata retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.08.2005 on attaining the age of superannuation.

S. K. GADI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 23rd May 2006

No. 12-3/2002-Admn. III.—The President is pleased to appoint Sh. M. H. Chaudhary, Senior Technical Assistant Regional Station for Forage Production & Demonstration, Hyderabad on promotion to the post of Fodder Agronomist, Regional Station for Forage Production & Demonstration, Chennai in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 24.3.2006 (FN).

ANITA TIPRA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 18th April 2006

No. 2-5/2004-Admn.-D-II (L) (CHD)—The President is pleased to appoint Dr. B. P. Nidaria, Smt. Kuldeep Kaur and Dr. B. R. Prasad all Research Officers in Central Hindi Directorate to the grade of Assistant Director (L) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same office w.e.f. the date of assumption of the charge of the said post by them.

HEM CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 31st March 2006

No. PF/S/113-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the list of retired Grade-I Officers of Central Secretariat Service vide Department of Personnel & Training O. M. Nos. 4/12/2001-CS. I dated the 13th October, 2005 and O.M. No. 4/10/2005-CS. I dated the 15th September, 2005, the President is pleased to appoint Shri S. C. Sharma, a regular Under Secretary of Central Secretariat Service to the Selection grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service on regular basis with effect from 1st July, 1995.

The pay of Officer would be fixed w.e.f. 1st July, 1995 on notional basis. However, the actual financial benefit would be available only from the date, the officer was so appointed to the post of Deputy Secretary i.e. 9th August, 1999.

Shri S. C. Sharma, Deputy Secretary retired from Government service on 31st October, 2003 (AN) on superannuation.

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 17th May 2006

No. A-39013/1/96-Admn. I.—DG, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Somnath Bhowmik, (Emp. Code No. 4163) from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', NIC-Purulia, West Bengal, with effect from the afternoon of 02.02.1996 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (P & E. II)

No. 5468/NIC/2006-P&E-II—DG, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. N. Venkata Narsimha Rao, (Emp. Code No. 5468) from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', NIC M. P. State Unit, Bhopal with effect from the afternoon of 17.02.2006 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (P & E. II)

New Delhi-110003, the 19th May 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Niraj Trivedi, Emp. Code-4246, from the post of

Scientific Officer/Engineers Grade SB, NIC Hqrs w.e.f. the afternoon of 16th November 1995 and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P & E-I)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th May 2006

No. A-60011/09/2005-VE—The President is pleased to appoint Shri K. Gohain, Joint Director General of Civil Aviation to the post of Director General of Civil Aviation in the Directorate General of Civil Aviation on regular basis in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from 12th of May, 2006 (FN) and until further orders.

K. K. PANT, Under Secy.

New Delhi, the 17th May 2006

No. A-12011/1/2005-SS—The President is pleased to appoint Shri Devendra Singh Chauhan, IPS (UP : 88) as Additional Commissioner of Security (Civil Aviation) in the Bureau of Civil Aviation Security, in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- plus special Allowance of Rs. 800/- p.m. on deputation basis w.e.f. 26.04.2006 (forenoon) for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

SANJIV JINDAL, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 18th May 2006

No. A-12025/1/2003-MA—The President is pleased to appoint Captain J. S. Uppal, Nautical Surveyor, in the Directorate General of Shipping as Deputy Nautical Adviser in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the directorate General of Shipping, Mumbai, with effect from 13th March, 2006 (FN) and until further orders.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

No. A-12026/1/2006-MA—The President is pleased to appoint Smt. Kiran Dhingra, IAS (AGMU-75) as Director General of Shipping in the Directorate General of Shipping, Mumbai, in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 17.4.2006 (FN) and until further orders.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 22nd May 2006

No. RW/AP(SE)/555-E.II (Vol. II)—On his repatriation from deputation from NHAI on 31.3.2006 (AN) vide NHAI's Office Order No. 11021/1/98-Admn. III dated 16th March, 2006, Shri Y. Balakrishna, Superintending Engineer (Civil) of this Department, has joined the Headquarters, New Delhi on 3rd April, 2006 (FN) (1.4.2006 & 2.4.2006 being holidays).

B. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd May 2006

No. 12/2006, File No. 3/8/2004-Estt. I.—The President is pleased to appoint, on promotion, the following officers in the Junior Administrative Grade of the Central Water Engineering (Group 'A') Service to the Senior Administrative Grade in the same service in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- with effect from the date mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Assumption of the post
1.	Sh. R. P. Saxena	27.04.2006 (FN)
2.	Sh. Shankar Mahto	30.03.2006 (AN)
3.	Sh. Rajinder Kumar Khanna	10.03.2006 (FN)
4.	Sh. P. V. Rao	10.03.2006 (FN)

HARPARTAP SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 13th January 2006

No. 7.2.2006-Admn. II.—Consequent upon his promotion to the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers' Service Cadre on ad-hoc basis, vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/21/2005-CS. II dated 21.12.2005 and after having been relieved by Ministry of Finance (Department of Revenue) vide their Office Order No. 212/2005 (F. No. A-32014/2/2002-Ad. IA) dated 29.12.2005, Shri V. K. Tondon is appointed as Principal Private Secretary (ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 30.12.2005 for a period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier. He is posted in Prasar Bharati (Directorate General : All India Radio) from the same date.

SHYAMA KUTTY, Under Secy.

The 31st March 2006

No. 3/1/2006-Admn. II.—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, on ad-hoc basis, vide Dop&T's Order No. 21/24/

2005-CS.I dated 24.02.2006 and in pursuance of DoP&T's Order No. 21/24/2005-CS.I (Pt.)(i) dated 28.03.2006, the President is pleased to appoint Shri Fazal Mahmood, Section Officer of Central Secretariat Service as Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, on ad-hoc basis, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 24.02.2006.

SHYAMA KUTTY, Under Secy.

The 18th April 2006

No. 13/1/2006-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Prawin Kumar, IRS (IT : 89) as Director in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Ministry of Information & Broadcasting w.e.f. 10.04.2006 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMA KUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 22nd May 2006

No. 1/46/2004-MUC —The President is pleased to appoint Shri Manoj Ranjan Assistant Director (Production), of the Common Cadre of Art and Production Staff of Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) and Directorate of Publications Division (DPD), to the post of Production Manager (Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) in the same cadre, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 31.03.2006.

2. He will be on probation for a period of two years w.e.f. 31.03.2006. The period of probation is extendable at the discretion of the Competent Authority.

FAZAL MAHMOOD, Under Secy.